

13. उपभोग के जीवन-चक्र मॉडल की व्याख्या कीजिए। क्या आय में स्थायी वृद्धि से एमपीसी अस्थायी आय/संपत्ति से अधिक है?
14. (क) वांछित पूंजी स्टॉक, पूंजी की किराया लागत और उत्पादन के स्तर के बीच कार्यात्मक संबंध दिखाएं।
- (ख) मान लीजिए कि पूंजी का सीमांत उत्पाद दिया गया है, पूंजी की उच्च किराया लागत का वांछित पूंजी स्टॉक पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

(2500)

[This question paper contains 8 printed pages.]

Your Roll No.....

Sr. No. of Question Paper : 10151

L

Unique Paper Code : 2272202401

Name of the Paper : Intermediate Macroeconomics-I: Foundation of Aggregate Income Determination

Name of the Course : B.A. (Prog.) Major

Semester : IV

Duration : 3 Hours

Maximum Marks : 90

समय : 3 घण्टे

पूर्णांक : 90

Instructions for Candidates

1. Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.
2. All questions are divided into **two** sections, **A** and **B**.
3. Attempt any **five** questions out of **seven** questions from each of the sections.
4. Use of appropriate diagrams/figures is necessary
5. **Section-A** has **short** answer questions and each carries **6** marks whereas **Section-B** contains **long** answer questions and each carries **12** marks.
6. Clearly indicate the section when answering any question.

P.T.O.

7. Answers may be written either in English or Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.

छात्रों के लिए निर्देश

1. इस प्रश्न-पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए।
2. सभी प्रश्न दो खंडों में विभाजित हैं - A और B।
3. प्रत्येक खंड से सात प्रश्नों में से किन्हीं पाँच प्रश्नों का उत्तर दें।
4. उपयुक्त आरेखों/आकृतियों का उपयोग आवश्यक है।
5. खंड - A में लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जिनमें प्रत्येक 6 अंक का है जबकि खंड - B में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं और प्रत्येक 12 अंक का है।
6. किसी भी प्रश्न का उत्तर देते समय खंड को स्पष्ट रूप से इंगित कीजिए।
7. इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए।

SECTION-A

(Attempt any 5 questions out of 7)

1. Derive the Keynesian aggregate supply schedule when the money wage is fixed.

खंड - B

(सात प्रश्नों में से किन्हीं पाँच प्रश्नों का उत्तर दें)

8. समष्टि आपूर्ति (AS) - समष्टि मांग (AD) मॉडल का उपयोग करते हुए, केनेसियन लचीली कीमत-स्थिर धन मजदूरी मॉडल में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि के प्रभावों को दिखाएं अल्पकाल में AS, AD, IS और LM वक्रों की स्थिति पर।
9. श्रम मांग-श्रम आपूर्ति अनुसूची और उत्पादन फलन का उपयोग करते हुए, अल्पकाल में प्रत्याशित मूल्य स्तर (P^e) में वृद्धि के समष्टि आपूर्ति वक्र पर प्रभाव को समझाएं।
10. आप शास्त्रीय और केनेसियन समष्टि मांग और समष्टि आपूर्ति संबंधों के सिद्धांतों के बीच आवश्यक अंतर क्या मानते हैं?
11. (i) अनुकूली और तर्कसंगत प्रत्याशाओं के बीच अंतर कीजिए।
(ii) मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि दर में वृद्धि के अल्पकालीन परिणामों के फीडबैक के विश्लेषण की जांच कीजिए।
12. फ्रीडमैन के विचार में, बेरोजगारी दर को 'पेग' करने का प्रयास करने का प्रभाव लगातार बढ़ती मुद्रास्फीति दर है। चर्चा कीजिए।

खंड - A

(सात प्रश्नों में से किन्हीं पाँच प्रश्नों का उत्तर दें)

1. जब धन मजदूरी स्थिर हो, तो केनेसियन समष्टि आपूर्ति अनुसूची निकालें।
2. मान लीजिए कि आयातित तेल की कीमत में बाहरी वृद्धि हुई है। आरेखात्मक विश्लेषण का उपयोग करते हुए, यह समझाइये कि यह आघात उत्पादन और मूल्य स्तर को कैसे प्रभावित करेगा। (आरेख आवश्यक है)
3. शास्त्रीय बनाम केनेसियन श्रम आपूर्ति वक्र के बीच अंतर कीजिए।
4. प्राकृतिक रोजगार दर और उत्पादन पर विस्तार से बताएं और उपयुक्त आरेख का उपयोग कीजिए।
5. तर्कसंगत प्रत्याशाओं की आलोचना की जांच कीजिए, विशेष रूप से तर्कसंगतता की वास्तविकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए।
6. बैरो-रिकार्डो समतुल्यता प्रस्ताव क्या है? समझाएं।
7. वांछित पूंजी स्टॉक पर राजकोषीय और मौद्रिक नीति के प्रभाव के बारे में समझाइये।

2. Suppose there is an exogenous increase in the price of imported oil. Using the graphical analysis, explain how shock a stock would affect output in the press level. (Diagram is required)
3. Distinguish between classical vs. Keynesian Labour supply curve.
4. Elaborate on the natural rate of employment and output with the help of an appropriate diagram.
5. Examine criticism of rational expectations with a focus on the plausibility of rationality
6. What is the Barro-Ricardo equivalence proposition? Explain.
7. Explain the effect of fiscal and monetary policy on the desired capital stock.

SECTION-B

(Attempt any 5 questions out of 7)

1. Using the aggregate supply (AS)-aggregate demand (AD) model, show the effects of an increase in the money supply in the Keynesian flexible price-fixed money wage model on the position of AS, AD, IS and LM curves in the short run.
2. Using the labour demand-labour supply schedules and the production function, explain the effect of an increase in the expected price level (P^e) on the aggregate supply curve in the short run.
3. What do you see as the essential differences between Classical and Keynesian theories of aggregate demand and aggregate supply relations?
4. (i) Distinguish between adaptive and rational expectations.

- (ii) Examine the Friedman's analysis of the short-run consequences of an increase in the rate of growth in the money supply.
5. In Friedman's view, the effect of an attempt to 'peg' the Unemployment rate is continuously rising inflation rate. Discuss.
6. Explain the Life-Cycle model of consumption. Does MPC out of permanent increase in income is higher than transitory income/wealth?
7. (a) Show the functional relationship among the desired capital stock, rental cost of capital and the level of output.
(b) Suppose the marginal product of capital is given, what would be the impact of a higher rental cost of capital on the desired capital stock?